

उत्तराखण्ड शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-1
संख्या-~~180~~/XIX-1/18-03 रिट/2017 टी0सी0
देहरादून : दिनांक 16 जुलाई, 2018
कार्यालय- ज्ञाप

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित उप नियंत्रकों को कालम-3 से कालम-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्रसं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
01	02	03	04
1.	श्री कुष्ण कुमार,	बाध्य प्रतीक्षा	उप नियंत्रक, गढ़वाल मण्डल देहरादून
2.	श्री मंगल सिंह नेगी	उप नियंत्रक, गढ़वाल मण्डल देहरादून।	उप नियंत्रक, कुमायू मण्डल हल्द्वानी- नैनीताल।

- 2- श्री कुष्ण कुमार द्वारा संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, मुख्यालय देहरादून का कार्य अतिरिक्त रूप से निवर्हन किया जायेगा। इस हेतु इन्हें कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
3- उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नव तैनाती स्थल पर तत्काल योगदान देना सुनिश्चित करें।

(राजेन्द्र कुमार तोमर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-~~180~~/XIX-1/18-16 रिट/2017 टी0सी0 दिनांक 16 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, देहरादून
- 3- आयुक्त, कुमाँऊ / गढ़वाल, नैनीताल / देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून / नैनीताल।
- 5- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- सम्बन्धित अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया नव तैनाती स्थल पर तत्काल योगदान आख्या देते हुए एक प्रति शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7- निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार पाण्डे)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें अनुभाग-1
संख्या-~~रिट-81~~ XIX-1 / 18-रिट-03 / 2017टी0सी0
देहरादून : दिनांक 06 जुलाई, 2018

शुद्धि पत्र

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-
रिट-180 / XIX-1 / 18-03रिट / 2017 टी0सी0, दिनांक-06.07.2018, में निम्नलिखित प्रस्तर
सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

“श्री मंगल सिंह नेगी, उप नियंत्रक की दिनांक-31 अक्टूबर 2018 को अधिवर्षता आयु पूर्ण
होने के फलस्वरूप सेवा निवृत्त होने के दृष्टिगत श्री नेगी को माह अक्टूबर, 2018 तक के
लिए विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून में रहकर कार्य संचालन की अनुमति
प्रदान की जाती है” को सम्मिलित किया जाता है


उक्त कार्यालय ज्ञाप के शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव।

~~संख्या-रिट-181 / XIX-1 / 18-रिट-03 / 2017 टी0सी0 तददिनांक।~~

~~आवश्यक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यकता पड़े पर वाही हेतु प्रेषित:-~~

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, देहरादून।
- 3- आयुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल, नैनीताल / देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून / नैनीताल।
- 5- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, देहरादून।
- 6- सम्बन्धित अधिकारी।
- 7- निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)
अनु सचिव।